



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2015/चैत्र 5, 1937

No. 176]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2015 /CHAITRA 5, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

सा.का.नि. 227(अ).-- केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (द्वितीय संशोधन) योजना, 2015 है।
- (2) यह सितंबर, 2014 की पहली तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा।
2. 'सारणी ग' में,—
 - (i) स्तंभ (1) के अधीन "6500" अंकों और स्तंभ (2) के अधीन "2051" अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

सारणी – ग

(पैरा 16 देखें)

(समतुल्य विधवा पेंशन)

| मृत्यु के दिन से अनधिक वेतन | समतुल्य विधवा पेंशन |
|-----------------------------|---------------------|
| (1) | (2) |
| रुपये | रुपये |
| 6,550 | 2,056, |
| 6,600 | 2,061 |
| 6,650 | 2,066 |
| 6,700 | 2,071 |
| 6,750 | 2,076 |
| 6,800 | 2,081 |

| | |
|-------|-------|
| 6,850 | 2,086 |
| 6,900 | 2,091 |
| 6,950 | 2,096 |
| 7,000 | 2,101 |
| 7,050 | 2,106 |
| 7,100 | 2,111 |
| 7,150 | 2,116 |
| 7,200 | 2,121 |
| 7,250 | 2,126 |
| 7,300 | 2,131 |
| 7,350 | 2,136 |
| 7,400 | 2,141 |
| 7,450 | 2,146 |
| 7,500 | 2,151 |
| 7,550 | 2,156 |
| 7,600 | 2,161 |
| 7,650 | 2,166 |
| 7,700 | 2,171 |
| 7,750 | 2,176 |
| 7,800 | 2,181 |
| 7,850 | 2,186 |
| 7,900 | 2,191 |
| 7,950 | 2,196 |
| 8,000 | 2,201 |
| 8,050 | 2,206 |
| 8,100 | 2,211 |
| 8,150 | 2,216 |
| 8,200 | 2,221 |
| 8,250 | 2,226 |
| 8,300 | 2,231 |
| 8,350 | 2,236 |
| 8,400 | 2,241 |
| 8,450 | 2,246 |
| 8,500 | 2,251 |
| 8,550 | 2,256 |
| 8,600 | 2,261 |

| | |
|--------|-------|
| 8,650 | 2,266 |
| 8,700 | 2,271 |
| 8,750 | 2,276 |
| 8,800 | 2,281 |
| 8,850 | 2,286 |
| 8,900 | 2,291 |
| 8,950 | 2,296 |
| 9,000 | 2,301 |
| 9,050 | 2,306 |
| 9,100 | 2,311 |
| 9,150 | 2,316 |
| 9,200 | 2,321 |
| 9,250 | 2,326 |
| 9,300 | 2,331 |
| 9,350 | 2,336 |
| 9,400 | 2,341 |
| 9,450 | 2,346 |
| 9,500 | 2,351 |
| 9,550 | 2,356 |
| 9,600 | 2,361 |
| 9,650 | 2,366 |
| 9,700 | 2,371 |
| 9,750 | 2,376 |
| 9,800 | 2,381 |
| 9,850 | 2,386 |
| 9,900 | 2,391 |
| 9,950 | 2,396 |
| 10,000 | 2,401 |
| 10,050 | 2,406 |
| 10,100 | 2,411 |
| 10,150 | 2,416 |
| 10,200 | 2,421 |
| 10,250 | 2,426 |
| 10,300 | 2,431 |

| | |
|--------|-------|
| 10,350 | 2,436 |
| 10,400 | 2,441 |
| 10,450 | 2,446 |
| 10,500 | 2,451 |
| 10,550 | 2,456 |
| 10,600 | 2,461 |
| 10,650 | 2,466 |
| 10,700 | 2,471 |
| 10,750 | 2,476 |
| 10,800 | 2,481 |
| 10,850 | 2,486 |
| 10,900 | 2,491 |
| 10,950 | 2,496 |
| 11,000 | 2,501 |
| 11,050 | 2,506 |
| 11,100 | 2,511 |
| 11,150 | 2,516 |
| 11,200 | 2,521 |
| 11,250 | 2,526 |
| 11,300 | 2,531 |
| 11,350 | 2,536 |
| 11,400 | 2,541 |
| 11,450 | 2,546 |
| 11,500 | 2,551 |
| 11,550 | 2,556 |
| 11,600 | 2,561 |
| 11,650 | 2,566 |
| 11,700 | 2,571 |
| 11,750 | 2,576 |
| 11,800 | 2,581 |
| 11,850 | 2,586 |
| 11,900 | 2,591 |
| 11,950 | 2,596 |
| 12,000 | 2,601 |

| | |
|--------|-------|
| 12,050 | 2,606 |
| 12,100 | 2,611 |
| 12,150 | 2,616 |
| 12,200 | 2,621 |
| 12,250 | 2,626 |
| 12,300 | 2,631 |
| 12,350 | 2,636 |
| 12,400 | 2,641 |
| 12,450 | 2,646 |
| 12,500 | 2,651 |
| 12,550 | 2,656 |
| 12,600 | 2,661 |
| 12,650 | 2,666 |
| 12,700 | 2,671 |
| 12,750 | 2,676 |
| 12,800 | 2,681 |
| 12,850 | 2,686 |
| 12,900 | 2,691 |
| 12,950 | 2,696 |
| 13,000 | 2,701 |
| 13,050 | 2,706 |
| 13,100 | 2,711 |
| 13,150 | 2,716 |
| 13,200 | 2,721 |
| 13,250 | 2,726 |
| 13,300 | 2,731 |
| 13,350 | 2,736 |
| 13,400 | 2,741 |
| 13,450 | 2,746 |
| 13,500 | 2,751 |
| 13,550 | 2,756 |
| 13,600 | 2,761 |
| 13,650 | 2,766 |
| 13,700 | 2,771 |

| | |
|----------------|-------|
| 13,750 | 2,776 |
| 13,800 | 2,781 |
| 13,850 | 2,786 |
| 13,900 | 2,791 |
| 13,950 | 2,796 |
| 14,000 | 2,801 |
| 14,050 | 2,806 |
| 14,100 | 2,811 |
| 14,150 | 2,816 |
| 14,200 | 2,821 |
| 14,250 | 2,826 |
| 14,300 | 2,831 |
| 14,350 | 2,836 |
| 14,400 | 2,841 |
| 14,450 | 2,846 |
| 14,500 | 2,851 |
| 14,550 | 2,856 |
| 14,600 | 2,861 |
| 14,650 | 2,866 |
| 14,700 | 2,871 |
| 14,750 | 2,876 |
| 14,800 | 2,881 |
| 14,850 | 2,886 |
| 14,900 | 2,891 |
| 14,950 | 2,896 |
| 15,000 या अधिक | 2,901 |

[फा. सं. एस- 35012/1/2012-एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल योजना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 747(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2001 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2015

G.S.R. 227(E).—In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the

Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2015.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of September, 2014.
2. in the 'Table C'
 - (i) Under column (1), after figures "6500" and under column (2), after figures "2051" the following shall be inserted, namely:—

TABLE- C

(See Paragraph 16)

(EQUIVALENT WIDOW PENSION)

| Salary at day of death not more than | Equivalent Widow Pension |
|--------------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| (Rupees) | (Rupees) |
| 6,550 | 2,056 |
| 6,600 | 2,061 |
| 6,650 | 2,066 |
| 6,700 | 2,071 |
| 6,750 | 2,076 |
| 6,800 | 2,081 |
| 6,850 | 2,086 |
| 6,900 | 2,091 |
| 6,950 | 2,096 |
| 7,000 | 2,101 |
| 7,050 | 2,106 |
| 7,100 | 2,111 |
| 7,150 | 2,116 |
| 7,200 | 2,121 |
| 7,250 | 2,126 |
| 7,300 | 2,131 |
| 7,350 | 2,136 |
| 7,400 | 2,141 |
| 7,450 | 2,146 |
| 7,500 | 2,151 |
| 7,550 | 2,156 |
| 7,600 | 2,161 |
| 7,650 | 2,166 |
| 7,700 | 2,171 |
| 7,750 | 2,176 |
| 7,800 | 2,181 |
| 7,850 | 2,186 |
| 7,900 | 2,191 |
| 7,950 | 2,196 |
| 8,000 | 2,201 |
| 8,050 | 2,206 |
| 8,100 | 2,211 |
| 8,150 | 2,216 |
| 8,200 | 2,221 |

| | |
|--------|-------|
| 8,250 | 2,226 |
| 8,300 | 2,231 |
| 8,350 | 2,236 |
| 8,400 | 2,241 |
| 8,450 | 2,246 |
| 8,500 | 2,251 |
| 8,550 | 2,256 |
| 8,600 | 2,261 |
| 8,650 | 2,266 |
| 8,700 | 2,271 |
| 8,750 | 2,276 |
| 8,800 | 2,281 |
| 8,850 | 2,286 |
| 8,900 | 2,291 |
| 8,950 | 2,296 |
| 9,000 | 2,301 |
| 9,050 | 2,306 |
| 9,100 | 2,311 |
| 9,150 | 2,316 |
| 9,200 | 2,321 |
| 9,250 | 2,326 |
| 9,300 | 2,331 |
| 9,350 | 2,336 |
| 9,400 | 2,341 |
| 9,450 | 2,346 |
| 9,500 | 2,351 |
| 9,550 | 2,356 |
| 9,600 | 2,361 |
| 9,650 | 2,366 |
| 9,700 | 2,371 |
| 9,750 | 2,376 |
| 9,800 | 2,381 |
| 9,850 | 2,386 |
| 9,900 | 2,391 |
| 9,950 | 2,396 |
| 10,000 | 2,401 |
| 10,050 | 2,406 |
| 10,100 | 2,411 |
| 10,150 | 2,416 |
| 10,200 | 2,421 |
| 10,250 | 2,426 |
| 10,300 | 2,431 |
| 10,350 | 2,436 |
| 10,400 | 2,441 |
| 10,450 | 2,446 |
| 10,500 | 2,451 |
| 10,550 | 2,456 |
| 10,600 | 2,461 |
| 10,650 | 2,466 |
| 10,700 | 2,471 |
| 10,750 | 2,476 |

| | |
|--------|-------|
| 10,800 | 2,481 |
| 10,850 | 2,486 |
| 10,900 | 2,491 |
| 10,950 | 2,496 |
| 11,000 | 2,501 |
| 11,050 | 2,506 |
| 11,100 | 2,511 |
| 11,150 | 2,516 |
| 11,200 | 2,521 |
| 11,250 | 2,526 |
| 11,300 | 2,531 |
| 11,350 | 2,536 |
| 11,400 | 2,541 |
| 11,450 | 2,546 |
| 11,500 | 2,551 |
| 11,550 | 2,556 |
| 11,600 | 2,561 |
| 11,650 | 2,566 |
| 11,700 | 2,571 |
| 11,750 | 2,576 |
| 11,800 | 2,581 |
| 11,850 | 2,586 |
| 11,900 | 2,591 |
| 11,950 | 2,596 |
| 12,000 | 2,601 |
| 12,050 | 2,606 |
| 12,100 | 2,611 |
| 12,150 | 2,616 |
| 12,200 | 2,621 |
| 12,250 | 2,626 |
| 12,300 | 2,631 |
| 12,350 | 2,636 |
| 12,400 | 2,641 |
| 12,450 | 2,646 |
| 12,500 | 2,651 |
| 12,550 | 2,656 |
| 12,600 | 2,661 |
| 12,650 | 2,666 |
| 12,700 | 2,671 |
| 12,750 | 2,676 |
| 12,800 | 2,681 |
| 12,850 | 2,686 |
| 12,900 | 2,691 |
| 12,950 | 2,696 |
| 13,000 | 2,701 |
| 13,050 | 2,706 |
| 13,100 | 2,711 |
| 13,150 | 2,716 |
| 13,200 | 2,721 |
| 13,250 | 2,726 |
| 13,300 | 2,731 |

| | |
|----------------|-------|
| 13,350 | 2,736 |
| 13,400 | 2,741 |
| 13,450 | 2,746 |
| 13,500 | 2,751 |
| 13,550 | 2,756 |
| 13,600 | 2,761 |
| 13,650 | 2,766 |
| 13,700 | 2,771 |
| 13,750 | 2,776 |
| 13,800 | 2,781 |
| 13,850 | 2,786 |
| 13,900 | 2,791 |
| 13,950 | 2,796 |
| 14,000 | 2,801 |
| 14,050 | 2,806 |
| 14,100 | 2,811 |
| 14,150 | 2,816 |
| 14,200 | 2,821 |
| 14,250 | 2,826 |
| 14,300 | 2,831 |
| 14,350 | 2,836 |
| 14,400 | 2,841 |
| 14,450 | 2,846 |
| 14,500 | 2,851 |
| 14,550 | 2,856 |
| 14,600 | 2,861 |
| 14,650 | 2,866 |
| 14,700 | 2,871 |
| 14,750 | 2,876 |
| 14,800 | 2,881 |
| 14,850 | 2,886 |
| 14,900 | 2,891 |
| 14,950 | 2,896 |
| 15,000 or more | 2,901 |

[F. No. S-35012/1/2012-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 748 (E), dated the 16th November, 1995 and last amended *vide* notification number G.S.R. 747 (E) dated the 27th September, 2001.